



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2419]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2012/अग्रहायण 26, 1934

No. 2419]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2012/AGRAHAYANA 26, 1934

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2012

का.आ. 2920(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1921, तारीख 15 जुलाई, 2011 द्वारा, जो भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 23 जुलाई, 2011 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और उड़ीसा सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 665.41 हेक्टर (लगभग) या 1644.22 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसूची में यथा वर्णित 665.41 हेक्टर (लगभग) या 1644.22 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्यांक जीएम (एचए)/हिंगुला विस्तार/2011/19 तारीख 4 नवम्बर, 2011, का निरीक्षण कलेक्टर, अंगुल (ओडिशा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय या महाप्रबंधक (भूमि/राजस्व और पुनर्वास), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, डाकघर-जागृति विहार, बुर्ला, जिला-सम्बलपुर-768020 (ओडिशा) के कार्यालय में किया जा सकता है।

## अनुसूची

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  
हिंगुला-II विस्तार परियोजना का ईस्टर्न पार्ट आफ गोपालप्रसाद (वेस्ट) और गोपालप्रसाद (ईस्ट)  
जिओलाजिकल ब्लॉक  
तालचेर, जिला-अंगुल, ओडिशा

[खानक संख्यांक जीएम(एचए)/हिंगुला विस्तार/ 2011/19 तारीख 4 नवम्बर, 2011]

सभी अधिकार:

क्र.सं	ग्राम	थाना	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	भूमि का वर्गीकरण(एकड़ में)			कुल क्षेत्र		टिप्पणी
						सरकारी गैर-वन	वन	काश्तकारी	एकड़ में	हेक्टेयर में	
1.	कुसुमपाल	कोलीयारी	262	तालचेर	अंगुल	90.54	2.20	40.76	133.50	54.03	भाग
2.	गोपालप्रसाद	कोलीयारी	263	तालचेर	अंगुल	143.63	57.26	107.12	308.01	124.65	भाग
3.	मालिबन्ध	कोलीयारी	265	तालचेर	अंगुल	16.57	10.37	188.92	215.86	87.36	भाग
4.	आसनबाहाली	कोलीयारी	264	तालचेर	अंगुल	20.72	63.78	25.26	109.76	44.42	पूर्ण
5.	नुआमुहिन	कोलीयारी	266	तालचेर	अंगुल	24.05	9.68	37.50	71.23	28.82	पूर्ण
6.	अम्बपाल	अंगुल	430	अंगुल	अंगुल	4.18	7.92	22.35	34.45	13.94	भाग
7.	नुआमुहिन आर.एफ.	अंगुल	-	अंगुल	अंगुल	0.00	440.00	0.00	440.00	178.07	भाग
8.	निशा पी.एफ.	अंगुल	-	अंगुल	अंगुल	0.00	331.41	0.00	331.41	134.12	भाग
कुल						299.69	922.62	421.91	1644.22 (लगभग)	665.41 (लगभग)	

ग्रामों के अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों का प्लॉट संख्या:

1. कुसुमपाल(भाग) - 438 से 469, 470(भा), 471 से 514, 905(भा), 960 से 979, 977/988, 965/993, 435/1010, 519/1017, 965/1047, 480/1056, 952/1065, 979/1081, 505/1086, 474/1099, 458/1103, 463/1104, 463/1105, 466/1106, 467/1107, 467/1108, 467/1109, 476/1110, 467/1111, 467/1112, 467/1128, 473/1129, 464/1139.

2. गोपालप्रसाद (भाग) - 2635(भा), 2636, 2637, 2639 से 2643, 2650, 2652(भा), 2664 से 2667, 2669 से 2851, 2852(भा), 2853, 2854, 2855(भा), 2856(भा), 2857, 2858, 2706/2864, 2840/2876, 2803/2884, 2777/2890, 2778/2892, 2832/2901, 2803/2902, 2832/2903, 2698/2966, 2752/2976, 2660/2978, 2752/2979, 2638/2980, 2702/2995, 2819/2999, 2811/3000, 2687/3002, 2693/3003, 2693/3004, 2853/3038, 2804/3041, 2795/3042, 2830/3043, 2761/3053, 2687/3060, 2850/3063, 2850/3064, 2008/3065, 771/3069, 2850/3085, 2847/3181, 2638/3243, 2638/3244, 2638/3245, 2638/3246, 2850/3251, 2850/3252, 2850/3253, 2850/3254, 2850/3255, 2849/3256, 2849/3257, 2847/3258, 2847/3259, 2847/3260, 2847/3261, 2847/3262, 2754/3263, 2754/3264, 2754/3265, 2749/3266, 2849/3275, 2850/3279, 2828/3280, 2828/3283, 2666/3303, 2666/3304, 2755/3313, 2749/3314, 2706/3427, 2850/3438, 2849/3439, 2754/3440, 2847/3441, 2847/3442, 2850/3443, 2749/3444, 2828/3500, 2828/3501, 2827/3521, 2763/3535, 2764/3536, 2770/3537, 2770/3538, 2778/3539, 2664/3541, 2664/3542, 2689/3543, 2689/3544, 2830/3545, 2830/3546, 2830/3547, 2829/3548, 2664/3549, 2829/3550, 2830/3551, 2664/3552, 2788/3553, 2850/3554, 2850/3555, 2850/3556, 2823/3557, 2770/3558, 2778/3559, 2788/3560, 2711/3561, 2788/3562, 2689/3563, 2689/3564, 2764/3565, 2788/3566, 2762/3567, 2788/3568, 2788/3569, 2788/3570, 2788/3571, 2788/3572, 2788/3573, 2766/3574, 2801/3575, 2823/3576, 2827/3577, 2850/3578, 2809/3579, 2830/3580, 2778/3581, 2788/3582, 2778/3583, 2828/3584, 2828/3585, 2735/3586, 2735/3587, 2727/3588, 2770/3589, 2786/3590, 2850/3591, 2850/3592, 2850/3593, 2674/3594, 2674/3595.

3. मालिबन्ध(भाग) - 1 से 5, 12 से 25, 29 से 49, 50(भा), 52 से 275, 276(भा), 279 से 281, 282(भा), 283 से 288, 289(भा), 290 से 555, 556(भा), 557(भा), 572, 589 से 592, 615 से 618, 642 से 671, 712, 713, 717 से 719, 722 से 809, 20/810, 170/811, 131/812, 200/813, 716/814, 31/816, 191/820, 164/821, 684/822, 731/823, 780/825, 363/826, 710/827, 118/828, 547/829, 743/830, 734/831, 722/832, 174/835, 725/836, 798/837, 712/839, 67/840, 65/841, 115/842, 164/845, 132/846, 132/847, 402/848, 169/849, 178/850, 94/851, 650/852, 592/853, 166/854, 741/855, 787/856, 787/857, 787/858, 716/859, 591/860, 453/861, 791/862, 147/863, 147/864, 147/865, 147/866, 129/867, 51/868 (P), 767/869, 734/870, 51/872, 453/874, 434/877, 463/878.

4. आसनबाहली(पूर्ण) - 1 से 80, 1/81, 1/82, 25/83, 63/84, 63/85, 63/86, 63/87, 76/88, 76/89, 76/90, 77/91, 78/92, 78/93, 77/94, 11/95, 6/96, 8/97, 8/98, 8/99, 14/100, 14/101, 8/102, 76/103, 8/104

5. नुआमुहिन ( भाग ) - 100 से 106, 116 से 160, 152/169, 124/180, 124/181, 123/182, 122/183, 129/193, 131/194, 118/195, 116/198, 140/199, 142/200, 142/201, 142/202, 116/203, 116/204, 119/205, 119/206, 135/209, 128/210, 127/211, 102/213, 100/214, 104/215, 120/216, 125/217, 145/219, 145/220, 158/221, 158/222, 127/231, 128/232, 117/234, 158/236, 121/237, 121/238, 157/264, 157/265, 154/266, 154/267, 154/268, 159/269, 154/270, 154/271, 130/272, 129/273, 129/274, 133/275, 133/276, 140/277, 158/278, 158/279, 158/280

6. अम्बपाल (भाग) - 1 से 5, 14(भा), 18 से 40, 41, 42, 45 से 64, 65(भा), 66 से 76, 86 से 99, 100(भा), 101 से 103, 110(भा), 113 से 165, 177 से 186, 197(भा), 422 से 425, 41/2104, 149/2161, 162/2162, 160/2164, 123/2165, 44/2204, 44/2205, 117/2426, 117/ 2427, 118/2428, 118/2429, 115/2574, 23/2705.

7. नुआमुहिन आर.एफ. ( भाग): - 440.00 एकड़ नक्शा में दिखाया गया है ।

8. निशा पी.एफ. ( भाग) :- 331.41 एकड़ नक्शा में दिखाया गया है ।

#### सीमा विवरण:

क- ख : रेखा बिन्दु- 'क' से प्रारंभ होती है जो भालुगाडिया और कुसुमपाल ग्रामों की सम्मिलित सीमा है। इसके पश्चात् प्लाट संख्या-446 की उत्तरी सीमा बिन्दु, प्लाट संख्या- 445 की पश्चिमी और आंशिक उत्तरी सीमा और प्लाट संख्या- 1010 की आंशिक उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या 438 की पश्चिमी उत्तरी पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या 439 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 441 की आंशिक पश्चिमी और उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 442 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-495 की सड़क को पार करती है, प्लाट संख्या 1086 की पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-506 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-1017 की आंशिक पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 514 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 1047 की आंशिक पश्चिमी, उत्तरी सीमा और प्लाट संख्या 966, 993, 964, 960 की उत्तरी सीमा से सड़क पार करती हुई बिन्दु- 'ख' पर मिलती है जो कुसुमपाल और गोपाल प्रसाद ग्राम की सम्मिलित सीमा है ।

ख- ग : रेखा कुसुमपाल और गोपालप्रसाद ग्रामों की सम्मिलित सीमा को पार करती हुई प्लाट संख्या-2636 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-2637 की आंशिक पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-3246 की आंशिक उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 2639 की आंशिक पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या-2643 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-2650 की पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या- 2669 की उत्तरी और आंशिक पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-2652 को पार करती हुई प्लाट संख्या- 2978 की उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-2664 की आंशिक उत्तरी सीमा के बिन्दु- 'ग' पर मिलती है, जो गोपालप्रसाद और नुआमुहिन तथा मलीबन्ध ग्रामों की सम्मिलित सीमा के ट्राईजंक्सन बिन्दु पर स्थित है।

ग-घ : रेखा मलीबन्ध और नुआमुहिन ग्रामों की सम्मिलित सीमा से आंशिक रूप से गुजरती है। इसके पश्चात् रेखा प्लाट संख्या- 4, 5, 12, 11, 25 की पूर्वी सीमा के साथ, प्लाट संख्या- 30 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या 29 की उत्तर-पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 47 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 50 (भाग) और 868(भाग) से होकर गुजरती हुई प्लाट संख्या-52 की आंशिक पश्चिमी और उत्तरी सीमा प्लाट संख्या- 53 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-51 की पूर्वी सीमा के बिन्दु- 'घ' पर मिलती है ।

घ-ड. : रेखा प्लाट संख्या-116, 204, 203 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ गुजरती हुई प्लाट संख्या-124 की पूर्वी सीमा, नुआमुहिन ग्राम की प्लाट संख्या- 105 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के बिन्दु- 'ड.' पर मिलती है। यह नुआमुहिन ग्राम और नुआमुहिन आर.एफ. का बाई-जंक्सन बिन्दु है।

ड-च-छ-ज-झ : इसके बाद रेखा नुआमुहिन आर.एफ. से होकर गुजरती है और बिन्दु- 'च' पर मिलती है। इसके पश्चात् रेखा नुआमुहिन आर.एफ. से होकर दक्षिण दिशा में बढ़ती है और बिन्दु - 'छ' पर मिलती है। यह नुआमुहिन आर.एफ. और कलमछुई ग्राम का बाई-जंक्सन बिन्दु है। रेखा नुआमुहिन आर.एफ. और कलमछुई की आंशिक सम्मिलित ग्राम सीमा से होकर गुजरती है और बिन्दु- 'ज' पर मिलती है। यह नुआमुहिन आर.एफ., आम्बापाल और कलमछुई ग्रामों का ट्राई-जंक्सन बिन्दु है। इसके पश्चात् रेखा आम्बापाल और कलमछुई ग्रामों की आंशिक सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ गुजरती हुई बिन्दु- 'झ' पर मिलती है।

झ-ञ-ट-ठ : रेखा प्लाट संख्या- 5 की उत्तरी और पूर्वी सीमा के साथ गुजरती है, प्लाट संख्या-14 को पार करती है, प्लाट संख्या-18 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या-19 की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या- 22 की आंशिक पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 28,29 और 34 की पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-36 की आंशिक उत्तरी और पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 41 की आंशिक उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 52 की आंशिक पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 55 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 60 की पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या- 64 की पूर्वी और उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-71 की उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या- 65, 100 के साथ बढ़ती है, प्लाट संख्या- 102, 103, 114 की पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या-113 की पश्चिमी और उत्तरी सीमा, प्लाट संख्या-112 की पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-110 से होकर गुजरती हुई आम्बापाल और कलमछुई ग्राम की सम्मिलित सीमा के बिन्दु- 'ञ' पर मिलती है। रेखा प्लाट संख्या- 110, 425, 422, 143, 145, 146, 147, 148, 156, 157, 164 की पूर्वी सीमा के साथ बढ़ती है, प्लाट संख्या-165 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या-161,167 की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या-178 की आंशिक पूर्वी सीमा, प्लाट संख्या-186 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या-100 की आंशिक पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा के साथ बढ़ती हुई बिन्दु - 'ट' पर मिलती है, प्लाट संख्या-90,89, 88, 86, 68, 69, 76, 75, 74 की दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या- 2205 की पूर्वी सीमा , प्लाट संख्या-2204, 46 की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या- 45 की दक्षिणी सीमा, इसके पश्चात् प्लाट संख्या- 41 की आंशिक पूर्वी और आंशिक दक्षिणी सीमा, प्लाट संख्या- 42 की आंशिक पूर्वी, दक्षिणी और आंशिक पश्चिमी सीमा, प्लाट संख्या-197 से होकर गुजरती हुई बिन्दु- 'ठ' पर मिलती है। यह आम्बापाल और नुआमुहिन आर.एफ. ग्रामों की सम्मिलित सीमा है।

ठ-ड-ढ-ण-त: इसके पश्चात् रेखा नुआमुहिन आर.एफ. से होकर जाती है तथा बिन्दु- 'ड' पर मिलती है, इसके पश्चात् रेखा नुआमुहिन आर.एफ. और असनबाहाली की आंशिक ग्राम सीमा से गुजरती हुई बिन्दु- 'ढ' पर मिलती है। रेखा नुआमुहिन आर.एफ. से होकर गुजरती है, इसके बाद नुआमुहिन आर.एफ. और निशा पी.एफ. की आंशिक सम्मिलित सीमा के साथ गुजरती हुई बिन्दु- 'ण' पर मिलती है। इसके पश्चात् रेखा निशा पी.एफ. से गुजरती हुई बिन्दु- 'त' पर मिलती है जो निशा पी.एफ. और बालिचंद्रपुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा है।

त-थ-द-ध : इसके पश्चात् रेखा निशा पीएफ और बलिचंद्रपुर ग्रामों की आंशिक सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ चलती हुई बिन्दु- 'थ' पर मिलती है जो निशा पी.एफ., बलिचंद्रपुर और पीरखमन ग्रामों का ट्राई जंक्सन बिन्दु है। इसके पश्चात् रेखा निशा पी.एफ. और बलिचंद्रपुर ग्राम की सम्मिलित सीमा के साथ आगे बढ़ती हुई बिन्दु- 'द' पर मिलती है। यह निशा पी.एफ., पीरखमन और कंकरेई ग्रामों का ट्राई जंक्सन बिन्दु है। इसके पश्चात् रेखा निशा पी.एफ. और कंकरेई ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ चलती हुई बिन्दु- 'ध' पर मिलती है। यह निशा पी.एफ., कंकरेई और भालूगाडिया ग्रामों का ट्राई- जंक्सन बिन्दु है।

ध-न-प-क : इसके पश्चात् रेखा निशा पी.एफ. और भालूगाडिया ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ गुजरती हुई बिन्दु- 'न' पर मिलती है जो निशा पी.एफ., नुआमुहिन आर.एफ. और कुसुमपाल ग्रामों का ट्राई - जंक्सन बिन्दु है। इसके पश्चात् रेखा मलीबंध और भालूगाडिया की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ गुजरती हुई बिन्दु- 'प' पर मिलती है जो भालूगाडिया, मलीबंध एवं कुसुमपाल ग्रामों का ट्राई-जंक्सन बिन्दु है। इसके पश्चात् रेखा भालूगाडिया और कुसुमपाल ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ चलती हुई प्रारंभिक बिन्दु- 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/31/2009-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2012

**S.O. 2920(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1921, dated 15<sup>th</sup> July, 2011 under sub- section(1) of section 7 of the Coal Bearing Areas(Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in part -II, section-3, sub -section (ii) of the Gazette of India, dated 23<sup>rd</sup> July, 2011, the Central Government had given notice of its intention to acquire lands and all rights therein as described in the Schedule appended to that notification ;

And, whereas in pursuance of section 8 of the said Act, the competent authority, after doing the needful, has made his report to the Central Government ;

And whereas, the Central Government, after considering the report of the competent authority, and consulting the Government of Orissa, is satisfied that the land measuring 665.41 hectares (approximately) or 1644.22 acres (approximately) as described in the Schedule appended hereto and all rights therein should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby declares that the land measuring 665.41 hectares (approximately) or 1644.22 acres (approximately) as described in the said Schedule and all rights in and over said lands are hereby acquired.

The plan bearing number GM (HA)/HINGULA EXTN./2011/19 dated 4<sup>th</sup> November, 2011 in respect of the acquired area may be inspected in the office of the collector, Angul (Odisha) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata, or in the office of the General Manager (Land/Revenue and Rehabilitation), Mahanadi Coalfields Limited, Jagriti Vihar, Post Office-Jagriti Vihar, Burla, District- Sambalpur-768020 (Odisha).

### SCHEDULE

**MAHANADI COAL FIELDS LIMITED**  
Hingula- II Extension Project of Eastern Part of Gopalprasad (West) and Gopalprasad (East)  
Geological Blocks of Talcher, Coalfields  
Coal Mining Block  
District-Angul, Odisha

[Plan bearing number GM (HA)/HINGULA EXTN./2011/19 dated 4<sup>th</sup> November, 2011]

All Rights :

Sl. No.	MAUZA/ VILLAGE	THANA	VILL. NO.	TAHASIL	DISTRICT	CLASSIFICATION OF LANDS IN ACRES			TOTAL AREA		REMARKS
						GOVT. NON FOREST	FOREST	TENANCY	IN Ac.	IN Ha.	
01	Kusumpal	Colliery	262	Talcher	Angul	90.54	2.20	40.76	133.50	54.03	Part
02	Gopal Prasad	Colliery	263	Talcher	Angul	143.63	57.26	107.12	308.01	124.65	Part
03	Mallibandha	Colliery	265	Talcher	Angul	16.57	10.37	188.92	215.86	87.36	Part
04	Asanabahali	Colliery	264	Talcher	Angul	20.72	63.78	25.26	109.76	44.42	Full
05	Nuamuhin	Colliery	266	Talcher	Angul	24.05	9.68	37.50	71.23	28.82	Part
06	Ambapal	Angul	430	Angul	Angul	4.18	7.92	22.35	34.45	13.94	Part
07	Nuamuhin RF	Angul	-	Angul	Angul	0.00	440.00	0.00	440.00	178.07	Part
08	Nisha PF	Angul	-	Angul	Angul	0.00	331.41	0.00	331.41	134.12	Part
TOTAL =						299.69	922.62	421.91	1644.22 (approx imately)	665.41 (approx imately)	

Plot numbers to be acquired in villages:-

1. Kusumpal (Part):- 438 to 469, 470(P), 471 to 514, 905(P), 960 to 979, 977/988, 965/993, 435/1010, 519/1017, 965/1047, 480/1056, 952/1065, 979/1081, 505/1086, 474/1099, 458/1103, 463/1104, 463/1105, 466/1106, 467/1107, 467/1108, 467/1109, 476/1110, 467/1111, 467/1112, 467/1128, 473/1129, 464/1139.

4651 5712-3

2. Gopalprasad (Part):- 2635(P), 2636, 2637, 2639 to 2643, 2650, 2652(P), 2664 to 2667, 2669 to 2851, 2852(P), 2853, 2854, 2855(P), 2856(P), 2857, 2858, 2706/2864, 2840/2876, 2803/2884, 2777/2890, 2778/2892, 2832/2901, 2803/2902, 2832/2903, 2698/2966, 2752/2976, 2660/2978, 2752/2979, 2638/2980, 2702/2995, 2819/2999, 2811/3000, 2687/3002, 2693/3003, 2693/3004, 2853/3038, 2804/3041, 2795/3042, 2830/3043, 2761/3053, 2687/3060, 2850/3063, 2850/3064, 2008/3065, 771/3069, 2850/3085, 2847/3181, 2638/3243, 2638/3244, 2638/3245, 2638/3246, 2850/3251, 2850/3252, 2850/3253, 2850/3254, 2850/3255, 2849/3256, 2849/3257, 2847/3258, 2847/3259, 2847/3260, 2847/3261, 2847/3262, 2754/3263, 2754/3264, 2754/3265, 2749/3266, 2849/3275, 2850/3279, 2828/3280, 2828/3283, 2666/3303, 2666/3304, 2755/3313, 2749/3314, 2706/3427, 2850/3438, 2849/3439, 2754/3440, 2847/3441, 2847/3442, 2850/3443, 2749/3444, 2828/3500, 2828/3501, 2827/3521, 2763/3535, 2764/3536, 2770/3537, 2770/3538, 2778/3539, 2664/3541, 2664/3542, 2689/3543, 2689/3544, 2830/3545, 2830/3546, 2830/3547, 2829/3548, 2664/3549, 2829/3550, 2830/3551, 2664/3552, 2788/3553, 2850/3554, 2850/3555, 2850/3556, 2823/3557, 2770/3558, 2778/3559, 2788/3560, 2711/3561, 2788/3562, 2689/3563, 2689/3564, 2764/3565, 2788/3566, 2762/3567, 2788/3568, 2788/3569, 2788/3570, 2788/3571, 2788/3572, 2788/3573, 2766/3574, 2801/3575, 2823/3576, 2827/3577, 2850/3578, 2809/3579, 2830/3580, 2778/3581, 2788/3582, 2778/3583, 2828/3584, 2828/3585, 2735/3586, 2735/3587, 2727/3588, 2770/3589, 2786/3590, 2850/3591, 2850/3592, 2850/3593, 2674/3594, 2674/3595.

3. Mallibandha (Part):- 1 to 5, 12 to 25, 29 to 49, 50(P), 52 to 275, 276(P), 279 to 281, 282(P), 283 to 288, 289(P), 290 to 555, 556(P), 557(P), 572, 589 to 592, 615 to 618, 642 to 671, 712, 713, 717 to 719, 722 to 809, 20/810, 170/811, 131/812, 200/813, 716/814, 31/816, 191/820, 164/821, 684/822, 731/823, 780/825, 363/826, 710/827, 118/828, 547/829, 743/830, 734/831, 722/832, 174/835, 725/836, 798/837, 712/839, 67/840, 65/841, 115/842, 164/845, 132/846, 132/847, 402/848, 169/849, 178/850, 94/851, 650/852, 592/853, 166/854, 741/855, 787/856, 787/857, 787/858, 716/859, 591/860, 453/861, 791/862, 147/863, 147/864, 147/865, 147/866, 129/867, 51/868 (P), 767/869, 734/870, 51/872, 453/874, 434/877, 463/878.

4. Asanabahali (Full):- 1 to 80, 1/81, 1/82, 25/83, 63/84, 63/85, 63/86, 63/87, 76/88, 76/89, 76/90, 77/91, 78/92, 78/93, 77/94, 11/95, 6/96, 8/97, 8/98, 8/99, 14/100, 14/101, 8/102, 76/103, 8/104

5. Nuamuhin (Part):- 100 to 106, 116 to 160, 152/169, 124/180, 124/181, 123/182, 122/183, 129/193, 131/194, 118/195, 116/198, 140/199, 142/200, 142/201, 142/202, 116/203, 116/204, 119/205, 119/206, 135/209, 128/210, 127/211, 102/213, 100/214, 104/215, 120/216, 125/217, 145/219, 145/220, 158/221, 158/222, 127/231, 128/232, 117/234, 158/236, 121/237, 121/238, 157/264, 157/265, 154/266, 154/267, 154/268, 159/269, 154/270, 154/271, 130/272, 129/273, 129/274, 133/275, 133/276, 140/277, 158/278, 158/279, 158/280.

6. Ambapal (Part):- 1 to 5, 14(P), 18 to 40, 41, 42, 45 to 64, 65(P), 66 to 76, 86 to 99, 100(P), 101 to 103, 110(P), 113 to 165, 177 to 186, 197(P), 422 to 425, 41/2104, 149/2161, 162/2162, 160/2164, 123/2165, 44/2204, 44/2205, 117/2426, 117/ 2427, 118/2428, 118/2429, 115/2574, 23/2705.



7. Land to be acquired in Nuamuhin Reserve Forest (Part) :- An areas of 440.00 acres (approximately as shown in the plan).

8. Land to be acquired in Nisa Protest Forest (Part) :- An areas of 331.41 acres (approximately as shown in the plan).

**Boundary Description:-**

- A - B: Line start on point 'A' which is the common boundary of village Bhalugadia and Kusumpal. Then passes over the northern point boundary of plot No.446, western and part northern boundary of plot No.445, western and part northern boundary of plot No.1010, western northern eastern boundary of plot No.438 northern boundary of plot No.439, part western and northern boundary of plot No.441, northern boundary of plot No.442, cross the road of plot No. 495, western, northern and eastern boundary of plot No.1086, northern boundary of plot No.506, part western, northern and eastern boundary of plot No.1017, northern boundary of plot No.514, part western, part northern boundary of plot No.1047, and cross the road northern boundary of plot No.966, 993, 964, 960 meet at point 'B' which is the common village boundary of village Kusumpal & Gopal Prasad.
- B - C: Line cross the common village boundary of village Kusumpal & Gopal Prasad, northern boundary of 2636, part western, northern & eastern boundary of plot No.2637, part northern and eastern boundary of plot No.3246, part western boundary of plot No.2639, northern boundary of plot No.2643, western boundary of plot No.2650, northern & part eastern boundary of plot No.2669 cross plot No.2652 northern and eastern boundary of plot No.2978, part northern boundary of plot No.2664 meets at point 'C' which is the common village boundary of Gopal Prasad & Nuamuhin and Mallibandha at tri-junction point.
- C - D: Line partly passes over the common village boundary of village Mallibandha & Nuamuhin. Then the line passes along eastern boundary of plot No.4, 5, 12, 11, 25, northern boundary of plot No.30, northern-eastern boundary of plot No.29, northern boundary of plot No.47 passes through plot Nos.50(P) & 868(P), part western and northern boundary of plot No.52, northern boundary of plot No.53, eastern boundary of plot No.51 meets at point 'D'.
- D - E: Line passes along the northern boundary of plot No.116, 204, 203 eastern boundary of plot No.124, northern & eastern boundary of plot No.105 of village Nuamuhin meets at point 'E'. This is the bi-junction point of village Nuamuhin and Nuamuhin RF.
- E - F - G - H - I: Then line passes through the Nuamuhin R.F. & meets at point 'F'. Then the line passes towards south direction through Nuamuhin RF meets at point 'G'. This is the bi-junction point of Nuamuhin RF & Kalamachhuin village. Line passes over the part common village boundary of Nuamuhin RF & Kalamachhuin meet at point 'H'. This is the tri-junction point of village Nuamuhin RF, Ambapal & Kalamachhuin. Then the line passes along the part common village boundary of village Ambapal and Kalamachhuin meet point 'I'.

I – J – K – L: The line passes along northern and eastern boundary of plot No.5, cross plot No.14, eastern and southern boundary of plot No.18, southern boundary of plot No.19, part eastern boundary of Plot No.22, eastern boundary of plot No.28, 29 & 34, part northern and eastern boundary of plot No.36, part northern boundary of plot No.41, part western and northern boundary of plot No.52, northern boundary of plot No.55, eastern boundary of plot No.60, eastern and northern boundary of plot No.64, northern boundary of plot No.71, passes along plot No.65, 100, western boundary of plot No.102, 103, 114, western and northern boundary of plot No.113, eastern boundary of plot No.112 passes through plot No.110, and meet at point 'J' at the common village boundary of village Ambapal and Kalamachhuin. The line passes along the eastern boundary of plot No.110, 425, 422, 143, 145, 146, 147, 148, 156, 157, 164 eastern & southern boundary of plot No.165, southern boundary of plot No.161, 167, part eastern boundary of plot No.178, eastern & southern boundary of plot No.186, part eastern & southern boundary of plot No.100 meet at point 'K', southern boundary of plot No.90, 89, 88, 86, 68, 69, 76, 75, 74, eastern boundary of plot No.2205, eastern & southern boundary of plot No.2204, 46, southern of plot No.45, then part eastern and part southern boundary plot No.41, part eastern, southern and part western boundary of plot No.42, passes through plot No.197 meet at point 'L'. This is the common boundary of village Ambapal & Nuamuhin RF.

L – M – N – O – P: Then line passes through Nuamuhin RF meet at point 'M'. Then line passes over the part village boundary of Nuamuhin RF & Asanbahali meet at point 'N'. Line passes through Nuamuhin RF then passes along the part common boundary of Nuamuhin RF & Nisha PF meets at point 'O'. Then the line passes through Nisha PF meets at point 'P' which is the common boundary of Nisha PF & village Balichandrapur.

P – Q – R – S: Then the line passes along the part common village boundary of Nisha PF & Balichandrapur meet at point 'Q' which is the tri-junction point of village Nisha PF, Balichandrapur & pirakhamana village. Then the line passes along the common village boundary of Nisha PF & Balichandrapur meet at point 'R'. This is the tri-junction point of village Nisha PF, Pirakhamana & Kankarei village. Then the line passes along the common village boundary and Nisha PF & Kankarei meet at point 'S'. This is the tri-junction point of village Nisha PF, Kankarei & Bhalugadia village.

S – T – U – A: Then line passes along the common village boundary of Nisha PF & village Bhalugadia meets at point 'T' which is the tri-junction point of Nisha PF, Nuamuhin RF & Kusumpal village. Then the line passes along the common village boundary of village Mallibandha & Bhalugadia meet at point 'U' which is the tri-junction point of village Bhalugadia, Mallibandha & Kusumpal. Then the line passes along the common village boundary of Bhalugadia & Kusumpal & meet at the starting point 'A'.

[F. No. 43015/31/2009-PRIW-1]

A. K. DAS, Under Secy.